



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2018/फाल्गुन 8, 1939

No.15]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2018/PHALGUNA 8, 1939

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

आ.अ.16(अ).— यतः बिहार एवं उत्तर प्रदेश के संसदीय एवं राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन के संबंध में कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 09-02-2018 की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/16/2018 के द्वारा की जा चुकी है।

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा।

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग] उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा, 11-03-2018 (रविवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 09-02-2018, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/16/2018 के द्वारा घोषित बिहार के 9-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 205-भभुआ व 216-जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के 51-फूलपुर व 64-गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

[सं. 576/एक्जिट/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एस.डी.आर/खण्ड-I/2018]

आदेश से,

के. एफ. विल्फ्रेड, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2018

O.N. 16 (E).—Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the House of the People and State Legislative Assembly in the State of Bihar and Uttar Pradesh, have been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/16/2018, dated 9th February, 2018.

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M.** and **5.30 P.M.** on **11-03-2018(Sunday)**, as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/16/2018, dated 9th February, 2018 from **9-Araria Parliamentary Constituency, 205-Bhabua & 216-Jehanabad Assembly Constituencies in Bihar, 51-Phulpur & 64-Gorakhpur Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh** shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

[No. 576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018]

By Order,

K.F.WILFRED, Sr.Principal Secy.